



वायुमंडल की परिभाषा

पृथ्वी के चारों ओर लिपटा हुआ गैसों का विशाल आवरण (giant cover of पृथ्वी का अखंड अंग है और उसे चारों तरफ से घेरे हुए है, वायुमंडल (Atmosphere) है। जलवायु वैज्ञानिक क्रिचफिल्ड के अनुसार वायुमंडल अपने वर्तमान स्वरूप में 58 से 50 करोड़ वर्ष पूर्व अर्थात् कैम्ब्रियन युग (Cambrian era) में आया। वायुमंडल का भार 5.6×10^{25} टन है एवं इसके भार का लगभग आधा भाग धरातल से 5500 किमी. की ऊँचाई पर पाया जाता है। आधुनिक अनुसंधानों से स्पष्ट होता है कि वायुमंडल की अंतिम ऊँचाई (विस्तार) 16 हजार कि.मी. से 32 हजार किलोमीटर के बीच है। वायुमंडल का 50% भाग इसके 5 $\frac{1}{2}$ कि.मी. की ऊँचाई तक, 75% भाग 16 कि.मी. के ऊँचाई तक एवं 99% भाग 32 कि.मी. ऊँचाई तक स्थित है।

2 / 8

वायुमंडल का संगठन

वायुमंडल का संगठन/संघटन (Composition of atmosphere) निम्नलिखित तत्वों से हुआ है -

गैस (GASES)


भौतिक दृष्टि से वायुमंडल विभिन्न गैसों का सम्मिश्रण है। 10 प्रमुख गैस वायुमंडल के संगठन/संघटन (atmosphere composition) के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं -

1

गैस (Gases)	आयतन (%)	स्रोत
नाइट्रोजन	78.03	जैविक
ऑक्सीजन	20.99	जैविक
आर्गन	0.93	रेडियोलॉजी
कार्बन डाईऑक्साइड	0.03	जैविक, औद्योगिक
हाइड्रोजन	0.01	जैविक, प्रकाश रसायनिक
नियोन	0.0018	आंतरिक
हीलियम	0.0005	रेडियोलॉजी
क्रिप्टन	0.0001	आंतरिक
जेनान	0.000005	आंतरिक
ओजोन	0.0000001	प्रकाश रसायनिक

Atmospheric composition



**प्रमुख गैसें****नाइट्रोजन (NITROGEN)**

- यह जैविक रूप से निष्क्रिय और भारी गैस (gas) है।
- इसका चक्रण वायुमंडल, मृदामंडल और जैवमंडल में अलग-अलग होता है।
- राइजोबियम बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है।
- यह नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में अम्ल वर्षा (Acid Rain) के लिए उत्तरदाई है।

ऑक्सीजन (OXYGEN)

- यह प्राणदायिनी गैस है।
- इस भारी गैस का संघनन वायुमंडल के नीचले भाग में है।

कार्बन डाईऑक्साइड (CARBON DIOXIDE)

- पौधे कार्बन डाईऑक्साइड से ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं।
- विविध कारणों से इस गैस की सांद्रता (Gas concentrations) में वृद्धि के कारण ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन की समस्या उत्पन्न हो रही है।

ओजोन (OZONE)

- वायुमंडल में अति अल्प मात्र में पाए जाने वाले ओजोन का सर्वाधिक सांद्रण 20-35 कि.मी. की ऊँचाई पर है।
- ओजोन सूर्य से आने वाली घातक पराबैंगनी किरणों (UV rays) को रोकती है।
- वर्तमान में CFC एवं अन्य ओजोन क्षरण पदार्थों की बढ़ती मात्र के कारण ओजोन परत (ozone layer) का क्षरण एक गंभीर समस्या के रूप में उभरी है।
- गैसों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाईऑक्साइड आदि भारी गैसों (heavy gases) हैं जबकि शेष गैसों हलकी गैसों (light gases) हैं और वायुमंडल के ऊपरी भागों में स्थित हैं।
- कार्बन डाईऑक्साइड एवं ओजोन अस्थायी गैसें हैं जबकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नियोन स्थायी गैसें हैं।

जलवाष्प (WATER VAPOUR)

**जलवाष्प (WATER VAPOUR)**

- वायुमंडल में आयतानुसार 4% जलवाष्प की मात्र सदैव विद्यमान रहती है।
- जलवाष्प की सर्वाधिक मात्र भूमध्य रेखा के आसपास और न्यूनतम मात्र ध्रुवों के आसपास होती है।
- भूमि से 5 किमी. तक के ऊँचाई वाले वायुमंडल में समस्त जलवाष्प का 90% भाग होता है।
- जलवाष्प सभी प्रकार के संघनन एवं वर्षण सम्बन्धी मौसमी घटनाओं के लिए जिम्मेदार होती है।
- ज्ञातव्य है कि वायुमंडल में जलमंडल का 0.001 % भाग सुरक्षित रहता है।

धूल कण (DUST PARTICLES)

- इसे एयरोसोल भी कहा जाता है। विभिन्न स्रोतों से वायुमंडल में जानेवाले धूलकण आर्द्रता ग्राही नाभिक का कार्य करते हैं।
- धूलकण सौर विकिरण के परावर्तन और प्रकीर्णन द्वारा ऊष्मा अवशोषित करते हैं।
- वर्णात्मक प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय-समय दिखने वाला रंग धूलकणों की ही देन है।
- ऊष्माकाल एवं गोधूली की तीव्रता एवं उसकी अवधि के निर्धारण में धूलकणों की प्रमुख भूमिका होती है।
- धूलकण एवं धुएँ के कण आर्द्रता ग्राही नाभिकों का भी कार्य करते हैं।
- धूलकणों का सर्वाधिक जमाव ऊपोष्ण व औद्योगिक क्षेत्रों में एवं न्यूनतम जमाव ध्रुवों के निकट पाया जाता है।

वायुमंडल की संरचना

वायुमंडल की संरचना के सम्बन्ध में 20वीं शताब्दी में विशेष अध्ययन किये गए हैं। इस दिशा में तिज्रांस-डि-बोर, सर नेपियर शाँ, फ्रैडले, कैनली, फेरेब आदि वैज्ञानिकों का विशेष योगदान रहा है। तापमान के उर्ध्वधर वितरण के आधार पर वायुमंडल के प्रमुख परतें (important layers) निम्नलिखित हैं - -

क्षोभमंडल (TROPOSPHERE)

- ट्रोपोस्फीयर/क्षोभ प्रदेश/Troposphere नामक शब्द का प्रयोग तिज्रांस-डि-बोर ने सर्वप्रथम किया था।
- वायुमंडल की इस सबसे नीचली परत (bottom layer) का भार सम्पूर्ण वायुमंडल का लगभग 15% है।
- धरातल से इस परत की औसत ऊँचाई 10 कि.मी. है। भूमध्य रेखा पर ऊँचाई 18 कि.मी. और ध्रुवों पर 8-10 कि.मी. है।
- ग्रीष्म ऋतु में इस स्तर की ऊँचाई में वृद्धि और शीतऋतु में कमी पाई जाती है।
- इस मंडल की प्रमुख विशेषता है प्रति 165 मी. की ऊँचाई पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आना। इसमें सर्वाधिक क्षैतिज और लम्बवत तापान्तर होता है।
- इस भाग में गर्म और शीतल होने का कार्य विकिरण, संचालन और संवहन द्वारा होता है।
- इस मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। समस्त मौसमी घटनाएँ भी इसी मंडल में घटित होती हैं।
- इस मंडल की एक और विशेषता यह है कि इसके भीतर ऊँचाई में वृद्धि के साथ वायुवेग में भी वृद्धि होती है।



- इस मंडल की एक और विशेषता यह है कि इसके भीतर ऊँचाई में वृद्धि के साथ वायुवेग में भी वृद्धि होती है।
- संवहनी तरंगों तथा विक्षुब्ध संवहन के कारण इस मंडल को कर्म से संवहनी मंडल और विक्षोभ मंडल भी कहते हैं।

क्षोभ सीमा (TROPOPAUSE)

- क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करनेवाली 1.5 कि.मी. मोटे संक्रमण को ट्रोपोपॉज या क्षोभ सीमा (tropopause) कहा जाता है।
- क्षोभ सीमा (tropopause) ऊँचाई के साथ तापमान का गिरना बंद हो जाता है।
- इसकी ऊँचाई भूमध्य रेखा पर 17-18 कि.मी. (तापमान- 80 डिग्री सेल्सियस) ध्रुवों पर 8-10 कि.मी. (तापमान -45 डिग्री सेल्सियस)

समताप मंडल (STRATOSPHERE)

- क्षोभ सीमा से ऊपर 50 कि.मी. की ऊँचाई तक समताप मंडल का विस्तार है।

- इस मंडल में तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता और संताप रेखाएँ समानंतर न होकर लम्बवत होते हैं।
- यहाँ संघनन से विशिष्ट प्रकार के "मुकताभ मेघ" की उत्पत्ति होती है और एवं गिरने वाले बूंदों को Noctilucent कहते हैं।
- इस मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सर्वाधिक और विषुवत रेखा पर सबसे कम होती है।
- शीत ऋतु में 50 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच समताप मंडल सर्वाधिक गर्म होता है।
- यह मंडल मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है, इसलिए वायुयान चालकों के लिए उत्तम होता है।
- 1992 में समताप मंडल (stratosphere) की खोज एवं नामाकरण तिब्बत-डि-बोर ने किया था।

आयन मंडल (IONOSPHERE)

- धरातल से 80-640 कि.मी. के बीच आयन मंडल का विस्तार है।
- यहाँ पर अत्यधिक तापमान के कारण अति न्यून दबाव होता है। फलतः पराबैगनी फोटॉस (UV photons) एवं उच्च वेगीय कणों के द्वारा लगातार प्रहार होने से गैसों का आयनन (Ionization) हो जाता है।
- आकाश का नील वर्ण, सुमेरु ज्योति, कुमेरु ज्योति तथा उल्काओं की चमक एवं ब्रह्मांड किरणों की उपस्थिति इस भाग की विशेषता है।

यह मंडल कई आयनीकृत परतों में विभाजित है, जो निम्नलिखित हैं :-

i) D का विस्तार 80-96 कि.मी. तक है, यह पार्ट दीर्घ रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है।

ii) E1 परत (E1 layer) 96 से 130 कि.मी. तक और E2 परत 160 कि.मी. तक विस्तृत हैं। E1 और E2 परत मध्यम रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है।

iii) F1 और F2 परतों का विस्तार 160-320 कि.मी. तक है, जो लघु रेडियो तरंगों (radio waves) को परावर्तित करते हैं। इस परत को एप्लीटन परत (appleton layer) भी कहते हैं।



iv) G परत का विस्तार 400 कि.मी. तक है. इस परत (layer) की उत्पत्ति नाइट्रोजन के परमाणुओं व पराबैगनी फोटॉस (UV photons) की प्रतिक्रिया से होती है.

बाह्य मंडल (EXOSPHERE)

- सामान्यतः 640 कि.मी. के ऊपर बाह्य मंडल का विस्तार पाया जाता है.
- यहाँ पर हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों की प्रधानता है.
- अद्यतन शोधों के अनुसार यहाँ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम तथा हाइड्रोजन की अलग-अलग परतें (different layers) भी होती हैं.
- लेमन स्पिड्जर ने इस मंडल पर विशेष शोध किया है.

वायुमंडल की रासायनिक संरचना

1992 में मार्सेल एवं निकोलेट ने रासायनिक आधार पर वायुमंडल को दो स्थूल भागों में विभाजित किया –

सममंडल

- इसकी औसत ऊँचाई सागर ताल से 90 कि.मी. तक है जिसमें क्षोभमंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल शामिल है.
- इस मंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाईऑक्साइड, नियोन, हीलियम व हाइड्रोजन आदि गैस सदैव सामान अनुपात में रहते हैं.

विषम मंडल

इस मंडल में मिलने वाली विभिन्न गैसीय परतों एवं गैसों के अनुपात में भिन्नता पाई जाती है. इसके निम्नलिखित भाग हैं -

आण्विक नाइट्रोजन परत - 90-200 कि.मी. की ऊँचाई तक.

आण्विक ऑक्सीजन परत - 200-1100 कि.मी. की ऊँचाई तक.

आण्विक हीलियम परत - 1100-3500 कि.मी. की ऊँचाई तक.

आण्विक हाइड्रोजन परत - 3500-10000 कि.मी. की ऊँचाई तक.





हाइड्रोजन आदि गैस सदैव सामान अनुपात में रहते हैं।

विषम मंडल


इस मंडल में मिलने वाली विभिन्न गैसीय परतों एवं गैसों के अनुपात में भिन्नता पाई जाती है। इसके निम्नलिखित भाग हैं -

आण्विक नाइट्रोजन परत - 90-200 कि.मी. की ऊँचाई तक.

आण्विक ऑक्सीजन परत - 200-1100 कि.मी. की ऊँचाई तक.

आण्विक हीलियम परत - 1100-3500 कि.मी. की ऊँचाई तक.

आण्विक हाइड्रोजन परत - 3500-10000 कि.मी. की ऊँचाई तक.





हाइड्रोजन आदि गैस सदैव सामान अनुपात में रहते हैं।

विषम मंडल

इस मंडल में मिलने वाली विभिन्न गैसीय परतों एवं गैसों के अनुपात में भिन्नता पाई जाती है। इसके निम्नलिखित भाग हैं -

आण्विक नाइट्रोजन परत - 90-200 कि.मी. की ऊँचाई तक.

आण्विक ऑक्सीजन परत - 200-1100 कि.मी. की ऊँचाई तक.

आण्विक हीलियम परत - 1100-3500 कि.मी. की ऊँचाई तक.

आण्विक हाइड्रोजन परत - 3500-10000 कि.मी. की ऊँचाई तक.

